



# भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

## साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 29

18 जुलाई, 2014

संख्या 29

### 1. भारतीय रिज़र्व बैंक – देयताएं और आस्तियां

(₹ बिलियन)

| मद                                      | 2013             | 2014             |                  | घट – बढ़      |                 |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                                         | 12 जुलाई         | 4 जुलाई          | 11 जुलाई         | सप्ताह        | वर्ष            |
|                                         | 1                | 2                | 3                | 4             | 5               |
| <b>1 जारी नोट</b>                       | <b>12,112.19</b> | <b>13,420.84</b> | <b>13,495.57</b> | <b>74.73</b>  | <b>1,383.38</b> |
| 1.1 संचलन में नोट                       | 12,112.07        | 13,420.72        | 13,495.45        | 74.73         | 1,383.38        |
| 1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट           | 0.12             | 0.12             | 0.13             | —             | 0.01            |
| <b>2 जमा राशियां</b>                    |                  |                  |                  |               |                 |
| 2.1 केंद्र सरकार                        | 1.00             | 1.01             | 1.00             | -0.01         | —               |
| 2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना               | —                | —                | —                | —             | —               |
| 2.3 राज्य सरकार                         | 0.42             | 0.43             | 0.42             | —             | —               |
| 2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 3,068.13         | 3,244.16         | 3,282.73         | 38.57         | 214.60          |
| 2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | 30.46            | 35.48            | 35.50            | 0.01          | 5.03            |
| 2.6 अन्य बैंक                           | 144.09           | 171.90           | 173.73           | 1.83          | 29.64           |
| 2.7 अन्य                                | 206.51           | 220.21           | 230.12           | 9.90          | 23.60           |
| 3 अन्य देयताएं                          | 8,180.10         | 8,803.45         | 8,886.84         | 83.39         | 706.74          |
| <b>कुल देयताएं / आस्तियां</b>           | <b>23,742.91</b> | <b>25,897.48</b> | <b>26,105.91</b> | <b>208.43</b> | <b>2,363.00</b> |
| 1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 15,164.26        | 17,517.72        | 17,657.46        | 139.74        | 2,493.20        |
| 2 सोने के सिक्के और सोना-चांदी          | 1,286.86         | 1,240.02         | 1,240.02         | —             | -46.84          |
| 3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित) | 6,754.56         | 6,450.16         | 5,673.30         | -776.86       | -1,081.26       |
| <b>4 ऋण और अग्रिम</b>                   |                  |                  |                  |               |                 |
| 4.1 केंद्र सरकार                        | 97.81            | 182.50           | —                | -182.50       | -97.81          |
| 4.2 राज्य सरकारें                       | 4.44             | 1.44             | 7.80             | 6.36          | 3.36            |
| 4.3 नाबार्ड                             | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक               | 211.21           | 89.55            | 1,099.35         | 1,009.80      | 888.14          |
| 4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक          | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक            | —                | —                | —                | —             | —               |
| 4.8 अन्य                                | 2.90             | 71.64            | 100.07           | 28.44         | 97.17           |
| <b>5 खरीदे और भुनाए गए बिल</b>          |                  |                  |                  |               |                 |
| 5.1 वाणिज्यिक                           | —                | —                | —                | —             | —               |
| 5.2 खज़ाना                              | —                | —                | —                | —             | —               |
| 6 निवेश                                 | 13.20            | 13.20            | 13.20            | —             | —               |
| 7 अन्य आस्तियां                         | 207.67           | 331.24           | 314.71           | -16.53        | 107.04          |

### 2. विदेशी मुद्रा भंडार

| मद                                        | 11 जुलाई 2014 को |                  | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |               |                          |                 |                |                 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                           |                  |                  | सप्ताह                     |               | मार्च 2014 की समाप्ति पर |                 | वर्ष           |                 |
|                                           | ₹ बिलियन         | मिलि.अम. डॉलर    | ₹ बिलियन                   | मिलि.अम. डॉलर | ₹ बिलियन                 | मिलि.अम. डॉलर   | ₹ बिलियन       | मिलि.अम. डॉलर   |
|                                           | 1                | 2                | 3                          | 4             | 5                        | 6               | 7              | 8               |
| <b>1 कुल भंडार</b>                        | <b>19,075.9</b>  | <b>317,036.5</b> | <b>141.1</b>               | <b>643.2</b>  | <b>792.1</b>             | <b>12,813.3</b> | <b>2,298.0</b> | <b>36,848.4</b> |
| 1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां                | 17,464.0         | 290,221.9        | 139.0                      | 648.7         | 854.9                    | 13,862.6        | 2,362.0        | 38,085.6        |
| 1.2 स्वर्ण                                | 1,240.0          | 20,634.9         | —                          | —             | -56.2                    | -931.9          | -46.8          | -920.6          |
| 1.3 विशेष आहरण अधिकार                     | 268.6            | 4,462.7          | 1.6                        | -4.0          | 0.3                      | -0.9            | 9.0            | 128.8           |
| 1.4 आइएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति | 103.3            | 1,717.0          | 0.5                        | -1.5          | -6.9                     | -116.5          | -26.2          | -445.4          |

### 3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ बिलियन में)

| 11 जुलाई 2014 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ = ₹ 3,234.1 बिलियन | 2014    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
|                                                                                                           | 28 जून  | 29 जून  | 30 जून  | 1 जुलाई | 2 जुलाई | 3 जुलाई | 4 जुलाई | 5 जुलाई | 6 जुलाई | 7 जुलाई | 8 जुलाई | 9 जुलाई | 10 जुलाई | 11 जुलाई |
|                                                                                                           | 1       | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      | 12      | 13       | 14       |
| भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष                                                              | 3,403.1 | 3,403.1 | 3,469.2 | 3,443.8 | 3,236.2 | 3,216.5 | 3,244.3 | 3,275.6 | 3,275.6 | 3,204.7 | 3,200.7 | 3,223.1 | 3,229.6  | 3,282.9  |
| औसत दैनिक आरक्षित नकदी अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष                                              | 105.2   | 105.2   | 107.3   | 106.5   | 100.1   | 99.5    | 100.3   | 101.3   | 101.3   | 99.1    | 99.0    | 99.7    | 99.9     | 101.5    |

## 4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ बिलियन)

| मद                                             | 27 जून<br>2014 को बकाया | निम्नलिखित अवधि में घटबढ़ |                      |                |                |                |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                |                         | पखवाड़ा                   | वित्त वर्ष में अब तक |                | वर्ष-दर-वर्ष   |                |
|                                                |                         |                           | 2013-2014            | 2014-2015      | 2013           | 2014           |
|                                                |                         |                           | 3                    | 4              | 5              | 6              |
| <b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>      |                         |                           |                      |                |                |                |
| 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां        | 864.0                   | 47.5                      | -113.6               | 86.9           | -73.3          | 131.1          |
| 1.2 बैंकों से उधार                             | 317.9                   | -50.1                     | -89.2                | -31.8          | -11.9          | 13.5           |
| 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 65.6                    | 5.4                       | -42.4                | -69.4          | -20.6          | 17.1           |
| <b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>                 |                         |                           |                      |                |                |                |
| 2.1 कुल जमाराशियां                             | 79,521.6                | 512.7                     | 3,216.9              | 2,466.0        | 8,393.4        | 8,800.2        |
| 2.1.1 वृद्धि (प्रतिशत)                         |                         | 0.6                       | 4.8                  | 3.2            | 13.5           | 12.4           |
| 2.1.1.1 मांग                                   | 7,857.8                 | 548.4                     | 539.4                | 718.6          | 649.5          | 695.4          |
| 2.1.1.2 मीयादी                                 | 71,663.8                | -35.8                     | 2,677.4              | 1,747.4        | 7,743.9        | 8,104.9        |
| 2.2 उधार                                       | 2,036.0                 | 19.7                      | 112.9                | -174.4         | 295.2          | -293.6         |
| 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं                | 4,355.6                 | -52.4                     | -42.0                | -27.7          | 275.3          | 281.2          |
| <b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>                  | <b>229.5</b>            | <b>39.1</b>               | <b>5.4</b>           | <b>-186.6</b>  | <b>150.5</b>   | <b>8.2</b>     |
| <b>4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि</b> | <b>3,889.5</b>          | <b>-20.7</b>              | <b>502.8</b>         | <b>267.3</b>   | <b>64.8</b>    | <b>159.1</b>   |
| 4.1 उपलब्ध नकदी                                | 504.6                   | 28.3                      | 37.7                 | 45.9           | 31.4           | 61.9           |
| 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि               | 3,384.9                 | -49.0                     | 465.0                | 221.5          | 33.4           | 97.2           |
| <b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां</b>       |                         |                           |                      |                |                |                |
| 5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष                     | 1,210.5                 | 35.9                      | 61.7                 | 148.2          | 260.3          | 188.1          |
| 5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि         | 221.1                   | -57.7                     | -72.9                | -57.0          | 13.0           | -2.0           |
| 5.3 बैंकों को अग्रिम                           | 206.3                   | 14.8                      | 9.4                  | 38.9           | -18.1          | 70.1           |
| 5.4 अन्य आस्तियां                              | 261.6                   | 33.4                      | -212.6               | -181.2         | -198.3         | -341.6         |
| <b>6 निवेश</b>                                 | <b>22,942.4</b>         | <b>-9.0</b>               | <b>1,279.2</b>       | <b>814.2</b>   | <b>2,699.4</b> | <b>1,602.2</b> |
| 6.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                         | -0.0                      | 6.4                  | 3.7            | 14.5           | 7.5            |
| 6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में                    | 22,922.5                | -8.7                      | 1,281.1              | 810.5          | 2,702.0        | 1,604.8        |
| 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में             | 20.0                    | -0.3                      | -1.9                 | 3.7            | -2.6           | -2.6           |
| <b>7 बैंक ऋण</b>                               | <b>61,225.3</b>         | <b>325.0</b>              | <b>1,441.0</b>       | <b>1,284.4</b> | <b>6,415.2</b> | <b>7,179.7</b> |
| 7.1 वृद्धि (प्रतिशत)                           |                         | 0.5                       | 2.7                  | 2.1            | 13.5           | 13.3           |
| 7.1.1 खाद्य ऋण                                 | 1,144.1                 | 46.8                      | 159.4                | 159.3          | 48.4           | 20.5           |
| 7.1.2 खाद्येतर ऋण                              | 60,081.2                | 278.2                     | 1,281.7              | 1,125.0        | 6,366.9        | 7,159.2        |
| 7.2 देशी बिल-खरीदे गए                          | 58,996.3                | 281.3                     | 1,428.4              | 1,305.6        | 6,138.2        | 6,976.2        |
| 7.2.1 देशी बिल-खरीदे गए                        | 363.7                   | 11.1                      | -3.9                 | -20.7          | 70.9           | 118.9          |
| 7.2.2 देशी बिल-खरीदे गए                        | 1,160.4                 | 2.5                       | -7.0                 | 54.6           | 113.9          | 72.8           |
| 7.2.3 देशी बिल-खरीदे गए                        | 242.5                   | 11.5                      | 6.8                  | -20.4          | 11.2           | 20.8           |
| 7.2.4 देशी बिल-खरीदे गए                        | 462.4                   | 18.5                      | 16.6                 | -34.7          | 81.0           | -8.9           |

## 5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

| मद/समाप्त सप्ताह                                    | 2013       | 2014        |             |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     | 12 जुलाई   | 13 जून      | 20 जून      | 27 जून      | 4 जुलाई     | 11 जुलाई    |
|                                                     | 1          | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           |
| <b>अनुपात</b>                                       |            |             |             |             |             |             |
| आरक्षित नकदी निधि अनुपात                            | 4.00       | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| सांविधिक चलनिधि अनुपात                              | 23.00      | 23.00       | 22.50       | 22.50       | 22.50       | 22.50       |
| नकदी-जमाराशि अनुपात                                 | 4.92       | 4.95        | ..          | 4.89        | ..          | ..          |
| ऋण-जमाराशि अनुपात                                   | 76.25      | 77.08       | ..          | 76.99       | ..          | ..          |
| वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात                         | 41.87      | 49.11       | ..          | 52.08       | ..          | ..          |
| निवेश-जमाराशि अनुपात                                | 30.73      | 29.05       | ..          | 28.85       | ..          | ..          |
| वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात                      | 51.54      | 42.14       | ..          | 33.02       | ..          | ..          |
| <b>दरें</b>                                         |            |             |             |             |             |             |
| नीतिगत रिपो दर                                      | 7.25       | 8.00        | 8.00        | 8.00        | 8.00        | 8.00        |
| रिवर्स रिपो दर                                      | 6.25       | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        | 7.00        |
| मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर                  | 8.25       | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        |
| बैंक दर                                             | 8.25       | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        | 9.00        |
| आधार दर                                             | 9.70/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 | 10.00/10.25 |
| सावधी जमा दर >1 वर्ष                                | 7.50/9.00  | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   | 8.00/9.05   |
| बचत जमाराशि दर                                      | 4.00       | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        | 4.00        |
| मांग मुद्रा दर (भारांकित औसत)                       | 7.09       | 8.00        | 8.18        | 8.11        | 8.08        | 8.45        |
| 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                   | 7.48       | 8.56        | 8.56        | 8.56        | 8.52        | 8.56        |
| 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | ..         | ..          | 8.66        | ..          | 8.64        | ..          |
| 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय                  | 7.55       | 8.60        | ..          | 8.70        | ..          | 8.67        |
| 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय                       | 7.53       | 8.59        | 8.70        | 8.72        | 8.67        | 8.78        |
| <b>भारिबैं संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिआ</b>        |            |             |             |             |             |             |
| आईएनआर-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा) | 59.90      | 59.48       | 60.28       | 60.10       | 59.79       | 60.19       |
| आईएनआर-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)        | 78.32      | 80.71       | 82.12       | 81.88       | 81.32       | 81.87       |
| अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिआ 1-माह               | 6.81       | 8.57        | 8.56        | 8.69        | 8.73        | 9.87        |
| 3-माह                                               | 6.54       | 8.68        | 8.76        | 8.79        | 8.76        | 8.57        |
| 6-माह                                               | 6.24       | 8.61        | 8.66        | 8.92        | 8.90        | 8.51        |

## 6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                 | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------------|------|----------|-------|
|                                                    | 2014           |          | पखवाड़ा                    |      | वित्त वर्ष में अब तक |       |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |       |
|                                                    |                |          |                            |      | 2013-2014            |       | 2014-2015 |       | 2013         |      | 2014     |       |
|                                                    | 31 मार्च       | 27 जून   | राशि                       | %    | राशि                 | %     | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %     |
|                                                    | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5                    | 6     | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12    |
| एम३                                                | 94,973.3       | 98,060.7 | 260.2                      | 0.3  | 3,507.0              | 4.2   | 3,087.4   | 3.3   | 9,842.9      | 12.7 | 10,655.5 | 12.2  |
| <b>1 घटक</b>                                       |                |          |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 1.1 जनता के पास मुद्रा                             | 12,483.4       | 13,017.4 | -271.2                     | -2.0 | 254.5                | 2.2   | 533.9     | 4.3   | 968.0        | 9.0  | 1,352.2  | 11.6  |
| 1.2 बैंकों के पास मांग जमा राशि                    | 8,043.9        | 8,778.8  | 549.7                      | 6.7  | 493.0                | 6.5   | 734.9     | 9.1   | 661.8        | 9.0  | 753.6    | 9.4   |
| 1.3 बैंकों के पास मीयादी जमा राशि                  | 74,426.3       | 76,249.6 | -17.1                      | -    | 2,767.9              | 4.3   | 1,823.3   | 2.4   | 8,208.2      | 13.8 | 8,558.7  | 12.6  |
| 1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि            | 19.7           | 14.9     | -1.2                       | -7.6 | -8.4                 | -26.0 | -4.7      | -24.1 | 5.0          | 26.3 | -9.1     | -37.8 |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>               |                |          |                            |      |                      |       |           |       |              |      |          |       |
| 2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण                          | 30,386.0       | 30,911.5 | -382.3                     | -1.2 | 2,192.5              | 8.1   | 525.5     | 1.7   | 3,917.3      | 15.4 | 1,628.9  | 5.6   |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक                                 | 6,987.1        | 6,645.2  | -392.9                     |      | 878.8                |       | -341.8    |       | 1,109.0      |      | -139.3   |       |
| 2.1.2 अन्य बैंक                                    | 23,398.9       | 24,266.2 | 10.5                       | —    | 1,313.7              | 6.2   | 867.3     | 3.7   | 2,808.3      | 14.3 | 1,768.2  | 7.9   |
| 2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण                     | 64,424.8       | 65,703.3 | 326.5                      | 0.5  | 1,583.3              | 2.8   | 1,278.5   | 2.0   | 6,898.8      | 13.4 | 7,441.3  | 12.8  |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक                                 | 88.4           | 81.1     | 3.1                        |      | -9.3                 |       | -7.3      |       | -20.7        |      | 59.9     |       |
| 2.2.2 अन्य बैंक                                    | 64,336.4       | 65,622.2 | 323.5                      | 0.5  | 1,592.6              | 2.8   | 1,285.8   | 2.0   | 6,919.4      | 13.5 | 7,381.5  | 12.7  |
| 2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां | 19,239.5       | 19,917.9 | 312.0                      | 1.6  | 428.1                | 2.6   | 678.4     | 3.5   | 327.8        | 2.0  | 3,123.2  | 18.6  |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं          | 173.4          | 177.0    | —                          | —    | 5.5                  | 3.6   | 3.6       | 2.1   | 19.8         | 14.3 | 18.1     | 11.4  |
| 2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं       | 19,250.4       | 18,649.0 | -4.1                       | —    | 702.4                | 4.3   | -601.5    | -3.1  | 1,320.8      | 8.4  | 1,556.0  | 9.1   |
| 2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं        | 8,433.2        | 8,639.5  | 257.9                      | 3.1  | 1,187.8              | 17.2  | 206.3     | 2.4   | 857.2        | 11.8 | 526.6    | 6.5   |

## 7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ बिलियन)

| मद                                                               | निम्न को बकाया |          | निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़ |      |                      |      |           |       |              |      |          |      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------|------|----------------------|------|-----------|-------|--------------|------|----------|------|
|                                                                  | 2014           |          | सप्ताह                     |      | वित्त वर्ष में अब तक |      |           |       | वर्ष-दर-वर्ष |      |          |      |
|                                                                  |                |          |                            |      | 2013-2014            |      | 2014-2015 |       | 2013         |      | 2014     |      |
|                                                                  | 31 मार्च       | 11 जुलाई | राशि                       | %    | राशि                 | %    | राशि      | %     | राशि         | %    | राशि     | %    |
|                                                                  | 1              | 2        | 3                          | 4    | 5                    | 6    | 7         | 8     | 9            | 10   | 11       | 12   |
| आरक्षित मुद्रा                                                   | 17,327.4       | 17,258.4 | 125.0                      | 0.7  | 428.9                | 2.8  | -69.0     | -0.4  | 929.6        | 6.3  | 1,680.6  | 10.8 |
| <b>1 घटक (1.1+1.2+1.3)</b>                                       |                |          |                            |      |                      |      |           |       |              |      |          |      |
| 1.1 संचलन में करेंसी                                             | 13,010.7       | 13,672.4 | 74.7                       | 0.5  | 361.2                | 3.0  | 661.7     | 5.1   | 1,038.0      | 9.2  | 1,401.5  | 11.4 |
| 1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंक की जमा राशि                         | 4,297.0        | 3,492.0  | 40.4                       | 1.2  | 36.0                 | 1.1  | -805.1    | -18.7 | -133.6       | -4.0 | 249.3    | 7.7  |
| 1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा राशि                          | 19.7           | 94.1     | 9.9                        | 11.8 | 31.8                 | 98.1 | 74.4      | 378.8 | 25.2         | 64.5 | 29.9     | 46.6 |
| <b>2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)</b>                             |                |          |                            |      |                      |      |           |       |              |      |          |      |
| 2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण                | 6,987.1        | 5,680.8  | -953.4                     |      | 951.3                |      | -1,306.3  |       | 1,263.1      |      | -1,176.3 |      |
| 2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण             | 6,976.4        | 5,673.4  | -959.8                     |      | 948.1                |      | -1,303.0  |       | 1,262.3      |      | -1,179.7 |      |
| 2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण | 574.9          | 1,212.4  | 1,038.2                    |      | -207.0               |      | 637.5     |       | 22.0         |      | 985.3    |      |
| 2.2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिया गया ऋण                  | 486.5          | 1,100.6  | 1,009.7                    |      | -191.0               |      | 614.1     |       | 57.7         |      | 888.0    |      |
| 2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां                  | 18,025.3       | 18,897.2 | 139.7                      | 0.7  | 870.2                | 5.6  | 871.9     | 4.8   | 789.1        | 5.0  | 2,446.3  | 14.9 |
| 2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता                          | 173.4          | 177.0    | —                          | —    | 5.5                  | 3.6  | 3.6       | 2.1   | 19.8         | 14.3 | 18.1     | 11.4 |
| 2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता                          | 8,433.2        | 8,708.9  | 99.5                       | 1.2  | 1,191.1              | 17.2 | 275.7     | 3.3   | 1,164.4      | 16.7 | 592.8    | 7.3  |

## 8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ बिलियन)

| दिनांक        | चलनिधि समायोजन सुविधा |             |            |                   | एमएसएफ | स्थायी चलनिधि सुविधा | ओएमओ (एकमुश्त) |      | निवल अंतर्वेशन<br>(+) / अवशोषण (-)<br>(1+3+5+6+8-2-4-7) |
|---------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|--------|----------------------|----------------|------|---------------------------------------------------------|
|               | रिपो                  | रिवर्स रिपो | सावधि रिपो | सावधि रिवर्स रिपो |        |                      | विक्रय         | क्रय |                                                         |
|               | 1                     | 2           | 3          | 4                 |        |                      | 5              | 6    |                                                         |
| 7 जुलाई 2014  | 162.29                | 25.69       | —          | —                 | 24.72  | 134.97               | 4.95           | —    | 291.34                                                  |
| 8 जुलाई 2014  | 208.54                | 21.06       | —          | —                 | 44.30  | 53.66                | 0.55           | —    | 284.89                                                  |
| 9 जुलाई 2014  | 217.86                | 14.57       | —          | —                 | 27.20  | 1.19                 | —              | —    | 231.68                                                  |
| 10 जुलाई 2014 | 219.65                | 30.38       | —          | —                 | 5.10   | 5.63                 | —              | —    | 200.00                                                  |
| 11 जुलाई 2014 | 183.67                | 11.19       | 610.02     | —                 | 83.80  | -34.71               | —              | —    | 831.59                                                  |

## 9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

| मद                                                           | 2013  |       | 2014  |       | निम्नलिखित अवधि में प्रतिशत घट-बढ़ |       |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|------|
|                                                              | मई    | जून   | मई    | जून   | माह                                | मार्च | वर्ष |
|                                                              | 1     | 2     | 3     | 4     | 5                                  | 6     | 7    |
| 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2010=100)                          | 129.2 | 131.4 | 139.9 | 141.0 | 0.8                                | 2.1   | 7.3  |
| 1.1 ग्रामीण                                                  | 129.8 | 132.1 | 141.3 | 142.3 | 0.7                                | 1.9   | 7.7  |
| 1.2 शहरी                                                     | 128.4 | 130.5 | 138.1 | 139.4 | 0.9                                | 2.5   | 6.8  |
| 2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001=100) | 228.0 | 231.0 | 244.0 | ..    | ..                                 | ..    | ..   |
| 3 थोक मूल्य सूचकांक (2004-05=100)                            | 171.4 | 173.2 | 181.7 | 182.6 | 0.5                                | 1.3   | 5.4  |
| 3.1 प्राथमिक वस्तुएं                                         | 227.3 | 233.9 | 246.8 | 249.9 | 1.3                                | 4.4   | 6.8  |
| 3.2 ईंधन और बिजली                                            | 191.9 | 194.7 | 212.1 | 212.3 | 0.1                                | -0.9  | 9.0  |
| 3.3 विनिर्मित उत्पाद                                         | 149.3 | 149.5 | 154.6 | 154.9 | 0.2                                | 0.5   | 3.6  |

## 10. जमा प्रमाणपत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                       |
|----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                     |
| 13 जून 2014    | 3,227.3                  | 512.3                   | 8.08 - 9.11           |
| 27 जून 2014    | 3,375.9                  | 448.8                   | 8.48 - 9.29           |

## 11. वाणिज्यिक पत्र

| समाप्त पखवाड़ा | बकाया राशि<br>(₹ बिलियन) | पखवाड़े के दौरान        |                          |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                |                          | जारी राशि<br>(₹ बिलियन) | ब्याज की दर<br>(प्रतिशत) |
|                |                          | 2                       | 3                        |
| 15 जून 2014    | 1,969.2                  | 485.2                   | 8.14 - 12.54             |
| 30 जून 2014    | 1,705.7                  | 504.6                   | 8.29 - 14.02             |

## 12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ बिलियन)

| मद                        | समाप्त सप्ताह |              |               |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
|                           | 12 जुलाई 2013 | 4 जुलाई 2014 | 11 जुलाई 2014 |
|                           | 1             | 2            | 3             |
| 1 मांग मुद्रा             | 245.0         | 186.2        | 167.0         |
| 2 नोटिस/सावधि मुद्रा      | 110.0         | 50.7         | 57.9          |
| 3 सीबीएलओ                 | 1,387.4       | 1,312.1      | 1,065.7       |
| 4 बाजार रिपो              | 1,345.2       | 847.0        | 1,096.6       |
| 5 कॉर्पोरेट बांड में रिपो | —             | —            | —             |

## 13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ बिलियन)

| 11 जुलाई 2014 को | प्रमुख धारक |                   |               | कुल     |
|------------------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                  | बैंक        | प्राथमिक व्यापारी | राज्य सरकारें |         |
|                  | 1           | 2                 | 3             |         |
| 14-दिवसीय        | —           | —                 | 745.2         | 751.8   |
| 91-दिवसीय        | 346.7       | 323.5             | 521.5         | 1,719.9 |
| 182-दिवसीय       | 232.8       | 265.3             | 74.5          | 789.1   |
| 364-दिवसीय       | 451.0       | 488.4             | 12.7          | 1,409.4 |
| सीएमबी           | —           | —                 | —             | —       |

## 14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹ बिलियन में)

| मद               | जुटाई गई सकल राशि             |                               |         | जुटाई गई निवल राशि            |                               |         |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|---------|
|                  | 2014-15<br>(11 जुलाई 2014 तक) | 2013-14<br>(12 जुलाई 2013 तक) | 2013-14 | 2014-15<br>(11 जुलाई 2014 तक) | 2013-14<br>(12 जुलाई 2013 तक) | 2013-14 |
|                  | 1                             | 2                             | 3       | 4                             | 5                             | 6       |
| 1. भारत सरकार    | 2,130.0                       | 1,800.0                       | 5,635.0 | 1,378.9                       | 1,672.5                       | 4,684.9 |
| 2. राज्य सरकारें | 501.5                         | 379.1                         | 1,966.6 | 341.8                         | 230.2                         | 1,645.9 |

उपर्युक्त सूचना में संकल्पनाएं, परिभाषाएं और उन पर आधारित कार्यप्रणालियां शामिल हैं, इन्हें <http://www.wss.rbi.org.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <http://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध हैं।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक का एक वर्ष के लिए शुल्क (डाक व्यय सहित) भारत में ₹ 1200 तथा विदेश में 40 अमरीकी डॉलर है।

श्री संजय कुमार हाँसदा द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से मुद्रित एवं प्रकाशित और प्रिंटोग्राफी सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, 24-बी, अंबालाल दोशी मार्ग, राजा बहादुर कंपाउंड, 103, भू-तल, फोर्ट, मुम्बई - 400 023 में मुद्रित।

संपादक श्री संजय कुमार हाँसदा।